

Hos

Chapter 6

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיִּבְרַשְׁנוּ: וְיָ- וַיִּרְפְּאוּ: טָרַף הוּא כִּי יְהוּהָ אֶל- וַנְּשׂוּבָה לָכֵן 1
और-बाँधगा-हमें मारा और-चंगा-करेगा-हमें फाड़ा उसने क्योंकि यहोवा की-और- और-लौटें आओ
[H2280](#) [H5221](#) [H7495](#) [H2963](#) [H1931](#) [H3068](#) [H0413](#) [H7725](#) [H3212](#)

आओ, हम यहोवा के पास लौट आर्यें। उसने आघात दिये थे वही हमें चंगा करेगा। उसने हमें आघात दिये थे वही उन पर मरहम भी लगायेगा।

לְפָנָיו: וַנְּחַיֶּה וַיִּקְמְנוּ הַשְּׁלִישִׁי בַיּוֹם מִיּוֹמָם יִחַנְנוּ 2
साम्हने-उसके और-जीएँगे उठाएगा-हमें तीसरे में-दिन से-दो-दिनों जिलाएगा-हमें
[H6440](#) [H2421](#) [H7992](#) [H3117](#) [H3117](#) [H2421](#)

दो दिन के बाद वही हमें फिर जीवन की ओर लौटायेगा। तीसरे दिन वह ही हमें उठा कर खड़ा करेगा, हम उसके सामने फिर जी पायेंगे।

כְּשֶׁם וַיְבֹא מוֹצָאֵוּ נִחְוִן כְּשֶׁחָר יְהוּהָ אֶת- לְרַעַת נִרְדְּפָה וַנְּדַע 3
बारिश-जैसे और-आएगा निकलना-उसका निश्चित भोर-जैसे यहोवा को- जानने-को पीछा-करें और-जानें
[H1653](#) [H0935](#) [H4161](#) [H7837](#) [H3068](#) [H0853](#) [H3045](#) [H7291](#) [H3045](#)

לָנוּ: אֶרֶץ: יוֹרָה כְּמִלְקוֹשׁ 4
भूमि-को सींचती-है बसन्त-वर्षा-जैसे हमें
[H0776](#) [H4456](#)

आओ, यहोवा के विषय में जानकारी करें। आओ, यहोवा को जानने का कठिन जतन करें। हमको इसका पता है कि वह आ रहा है वैसे ही जैसे हम को ज्ञान है कि प्रभात आ रहा है। यहोवा हमारे पास वैसे ही आयेगा जैसे कि बसन्त कि वह वर्षा आती है जो धरती को सींचती है।

בָּקָר כְּעֶנָן וְחִסְדָּם: לְיְהוּהָ לָ: אֶשְׁשָׁה- מָה אֶפְרַיִם לָ: אֶשְׁשָׁה- מָה 4
भोर-की बादल-जैसी- और-कृपा-तुम्हारी यहूदा तुझसे करूँ- क्या एफ़्रैम तुझसे करूँ- क्या
[H1242](#) [H6051](#) [H3063](#) [H4100](#) [H0669](#) [H4100](#)

וְכִטְלֵ: מְשָׁכִים הַקָּלָ: 5
जल्दी और-ओस-जैसी जाती-है
[H1980](#) [H7925](#) [H2919](#)

हे एफ़्रैम, तुम ही बताओ कि मैं (यहोवा) तुम्हारे साथ क्या करूँ? हे यहूदा, तुम्हारे साथ मुझे क्या करना चाहिये? तुम्हारी आस्था भोर की धुंध सी है। तुम्हारी आस्था उस ओस की बूँद सी है जो सुबह होते ही कही चली जाती है।

: יָצָא: אֹרֶךְ וּמִשְׁפָּטָיו: כִּי בְּאֲמָרַי- הַרְגִּיתִים בְּנִבְיָאִים חֲצֵבְתִּי כֵן עַל- 5
निकलता-है प्रकाश और-न्याय-तेरे मुँह-मेरे वचनों-से- मारा-उन्हें से-नबियों काटा इसलिए पर-
[H3318](#) [H0216](#) [H4941](#) [H6310](#) [H0561](#) [H2026](#) [H5030](#) [H2672](#)

मैंने नबियों का प्रयोग किया और लोगों के लिये नियम बना दिये। मेरे आदेश पर लोगों का वध किया गया किन्तु इन निर्णयों से भली बाते ऊपजेंगी।

: מַעֲלֹוֹת: אֱלֹהִים וְרַעַת זָבַח וְלֹא- חֲפָצְתִּי חִסָּד כִּי 6
होमों-से एलोहीम-का और-ज्ञान बलिदान और-नहीं- चाहता-हूँ कृपा क्योंकि
[H0430](#) [H1847](#) [H2077](#) [H3808](#)

क्योंकि मुझे सच्चा प्रेम भाता है न कि मुझे बलियाँ भाती हैं, मुझे भाता है कि परमेश्वर का ज्ञान रखें, न कि वे यहाँ होमबलियाँ लाया करें।

: כִּי בְּ: בְּדָרוּ שָׁם בְּרִית עָבְרוּ כְּאָדָם וְהָמָה 7
मेरे-विरुद्ध विश्वासघात-किया वहाँ वाचा उल्लंघन-किया आदम-जैसे और-वे
[H0898](#) [H8033](#) [H1285](#) [H0121](#) [H1992](#)

किन्तु लोगों ने वाचा तोड़ दी थी जैसे उसे आदम ने तोड़ा था। अपने ही देश में उन्होंने मेरे संग विश्वासघात किया।

8
 גִּלְעָד קָרְיַת פְּעֻלֵי אֲוֹן עֲקָבָה מִדָּם:
 गिलआद गिलआद करनेवालों-का अथर्म दागी रक्त-से
[H1818](#) [H0205](#) [H6466](#) [H7151](#) [H1568](#)

गिलाद उन लोगों की नगरी है, जो पाप किया करते हैं। वहाँ के लोग चालबाज हैं और वे औरों की हत्या करते हैं।

9
 וּבְחַלְוֵי אִישׁ גְּרוּדִים חֶבֶר כְּתוּבִים דָּרָךְ יִרְצָחוּ- שְׂכָמָה כִּי
 और-घात-लगानेवालों-जैसे आदमी-के डाकुओं दल याजकों-का मार्ग हत्या-करते-हैं- शकेम-की-ओर क्योंकि
[H2442](#) [H0376](#) [H1416](#) [H2267](#) [H3548](#) [H1870](#) [H7523](#) [H7927](#)

זְמַח עָשָׂו:
 दुष्टता किया
[H2154](#)

जैसे डाकू किसी की घात में छुपे रहते हैं कि उस पर हमला करें, वैसे ही शकेम की राह पर याजक घात में बैठे रहते हैं। जो लोग वहाँ से गुजरते हैं वे उन्हें मार डालते हैं। उन्होंने बुरे काम किये हैं।

10
 בְּבֵית יִשְׂרָאֵל רְאִיתִי [שְׁעֵרִירִיָּה] (שְׁעֵרִירִיָּה) שָׁם זְנוּת לְאַפְרָיִם נְטוּמָא יִשְׂרָאֵל:
 मैं-घराने इसाएल-के देखा [—] भयानकता वहाँ व्यभिचार एप्रेम-को अशुद्ध-हुआ इसाएल
[H3478](#) [H7200](#) [H3478](#) [H8033](#) [H2184](#) [H0669](#) [H3478](#)

इसाएल की प्रजा में मैंने भयानक बात देखी है। एप्रेम परमेश्वर के हेतू सच्चा नहीं रहा था। इसाएल पाप से दोषयुक्त हो गया है।

11
 נָם- יְהוּדָה שָׁת קָצִיר לָךְ בְּשׁוּבִי שְׁבוּת עַמִּי: פ
 भी- यहुदा ठहराया कटनी तेरे-लिए में-लौटाने-पर-मेरे बन्धुआई प्रजा-मेरी
[H1571](#) [H3063](#) [H7896](#) [H7725](#) [H7622](#)

यहुदा, तेरे लिये भी एक कटनी का समय है। यह उस समय होगा, जब मैं अपने लोगों को बंधुआयी से लौटा कर लाऊँगा।